



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1349]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940

No. 1349]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली 3 अप्रैल, 2018

का.आ. 1493(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 21.02.2018 को आदेश संख्या पीडी-12002/02/2018-कोफेपोसा जारी किया गया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि श्री सत प्रकाश सोनी उर्फ सोनू, सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी, निवासी बी-135, दुग्गल कॉलोनी, देवली रोड, खानपुर, नई दिल्ली-110062 को भविष्य में माल की तस्करी को बढ़ावा देने, तस्करी वाले माल को रखने और तस्करी वाले माल के लेन-देन से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रखा जाए।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख के 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[फा.स.पीडी-12002/02/2018-कोफेपोसा]

पी.वी.सुब्बा राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)****(COFEPOSA WING)****ORDER**New Delhi, the 3rd April, 2018

S.O. 1493(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order No. PD-12002/02/2018-COFEPOSA dated 21.02.2018 under the said sub-section directing that Shri Sat Prakash Soni @ Sonu, S/o Shri Jagdish Prasad Soni, R/o B-135, Duggal Colony, Deoli Road, Khanpur, New Delhi -110062, be detained and kept in Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting goods, keeping smuggled goods and dealing in smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No. PD-12002/02/2018-COFEPOSA]
P.V.SUBBA RAO, Jt. Secy.